

February 06, 2023

BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor New Trading Rotunda Building, P J Towers Dalal Street Fort, Mumbai- 400001	National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051
Scrip Code – 530517	Scrip Code – RELAXO

Sub: Newspaper Advertisement for Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2022

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith newspaper advertisement for Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2022 published in Economics Times (Mumbai and Delhi – English Edition) and Navbharat Times (Delhi – Hindi Edition) on February 06, 2023.

The same is for your information and records please.

Thanking You,

Yours Sincerely,

For **Relaxo Footwears Limited**,

Sushil Batra
Chief Financial Officer

Encl : as above

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700
Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097



Indian Oil Withdraws Proposal to Scrap Board Seat for R&D Chief

Sanjeev.Choudhary@timesgroup.com

New Delhi: Indian Oil Corporation (IOC) has withdrawn its proposal to the government to eliminate the board seat for the company's research & development (R&D) head after stiff opposition from within the organisation, said people familiar with the matter. The company has conveyed to the government that it changed its mind after receiving wider feedback on the proposal, they said. Indian Oil Corporation did not respond to ET's request for comment. At present, the R&D chief is a director on the board of the company and is appointed by the Cabinet Committee for Ap-



Planned to reduce profile of R&D chief to level of ED and merge R&D unit into some other division

ointments. IOC had proposed to reduce the profile of the R&D chief to the level of executive director and merge the R&D unit into some other division of the company. The company had then argued that it would lead to a leaner structure and faster decision-making. "The argument wasn't very convincing. You need to empower R&D for effective outcomes, not put them under somebody who may not understand it very well," a person with direct knowledge of the matter said on condition of anonymity.

At a time when research and innovation are becoming critical to energy companies, IOC's move to curb the independence of the R&D unit and disempower its chief was a little surprising, said the person. "The members of the R&D unit are understood to have made representations to the government, challenging the proposal, and arguing why an independent and empowered R&D unit was needed. The company which has a sprawling R&D centre at Faridabad in Haryana, has filed more than 1,500 patents so far. Its researchers have been contributing in various areas from lubricants to refineries, petrochemicals, hydrogen fuel cells, batteries, bio-energy and nanotechnology.



DAINIK BHASKAR CONSISTENTLY DELIVERING STRONG RESULTS

29%
PRINT AD REVENUE GROWTH

24%
TOTAL REVENUE GROWTH

COMPARATIVE OF 9M FY'23 V/S 9M FY'22

- Print advertising revenue grew to ₹11,233 Mn. against ₹8,693 Mn.
- Consolidated total revenue grew to ₹16,209 Mn. against ₹13,087 Mn.

DAINIK BHASKAR - NO. 1 NEWS PUBLISHER APP IN INDIA

News Apps (Monthly Unique Visitors - Millions)	Jul-20	Jul-21	Dec-22
Dainik Bhaskar (Mobile App)	4.8	10.2	11.6
Divya Bhaskar (Mobile App)	1.4	2.7	3.4
Aaj Tak (Mobile App)	8.6	4.2	4.7
ABP Live News (Mobile App)	2.3	1.5	0.9
Dainik Jagran Hindi News (Mobile App)	0.6	0.6	0.6

Source: Comscore Mobile, Metria Media Trend, All Custom List of News Apps (Dainik Bhaskar (Mobile App), Divya Bhaskar (Mobile App), Aaj Tak (Mobile App), ABP Live News (Mobile App), Dainik Jagran Hindi News (Mobile App), Total Audience, Jul-20 to Dec-22, India *excluding aggregation



दैनिक भास्कर दिव्या भास्कर दिल्ली मसूरी **DB Corp Ltd**
India's Largest Newspaper Group* | 12 States | 61 Editions | 3 Languages


Registered Office: Plot no. 280, Sarkhej, Gandhinagar Highway, Near YMCA Club, Makarba, Ahmedabad - 380 051, Gujarat. CIN: L22110GJ1995PLC047208 | www.bhaskar.net

GOODLUCK GOODLUCK INDIA LIMITED

(Manufacturer & Exporter of Engineered Precision Products Since 1987)

E-mail: goodluck@goodluckindia.com | Website: www.goodluckindia.com

"Infinite, The possibilities we aspire"



16%

SALES (Volume) YEAR ON YEAR

10%

EBITDA YEAR ON YEAR

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial results for the Nine Months/ Quarter ended on 31st December, 2022

S. No.	Particular	Standalone			Consolidated		
		3 months ended on 31/12/2022 (Unaudited)	3 months ended on 31/12/2021 (Unaudited)	9 months ended on 31/12/2022 (Unaudited)	3 months ended on 31/12/2022 (Unaudited)	3 months ended on 31/12/2021 (Unaudited)	9 months ended on 31/12/2022 (Unaudited)
1.	Total income from operations	70,594.61	70,580.29	2,30,746.10	70,594.61	70,580.29	2,30,746.10
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,805.58	2,704.68	8,372.03	2,805.51	2,704.56	8,461.14
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,840.11	2,015.58	5,898.95	1,840.04	2,016.45	5,984.04
4.	Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)	545.13	520.13	545.13	545.13	520.13	545.13
5.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations)	7.02	7.80	22.63	7.02	7.80	22.96
	Diluted:	7.02	7.80	22.63	7.02	7.80	22.96

NOTE:
1. The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 03.02.2023. The Statutory Auditor has carried out a Limited Review of the result of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the stock exchange as under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on Company's website (www.goodluckindia.com).

For Goodluck India Limited
Sd/-
M.C. Garg
Chairman
DIN: 00292437
CIN: L74899DL1984PLC050910
Date: February 4, 2023



RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085 (India), Phons: 91-11-46800600, 46800700, Fax No.: 91-11-46800692
E-mail: rf@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
CIN: L74899DL1984PLC019097

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	
	Unaudited				Audited
1. Total Income from Operations	685.45	748.99	2032.08	1972.89	2676.99
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	40.58	93.97	124.60	226.16	310.60
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	40.58	93.97	124.60	226.16	310.60
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	30.10	70.10	91.17	169.75	232.68
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	30.18	69.67	92.94	169.47	232.99
6. Equity Share Capital	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
7. Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	1735.23
8. Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)					
Basic	1.21	2.82	3.66	6.83	9.36
Diluted	1.21	2.82	3.66	6.82	9.35

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Ramesh Kumar Dua
Managing Director
DIN: 00157872

Delhi, February 4, 2023



INDIA GATE
BASMATI RICE

BASMATI RICE SE

NO COMPROMISE

AGED TO PERFECTION

WORLD'S NO.1 BASMATI RICE

KRBL Limited
INDIA'S PREMIER RICE MILLER & BASMATI RICE EXPORTER

*As per Market Intelligence Report on packaged basmati rice MAY-June 22

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2022 (₹ in Lakh except as stated otherwise)

Particulars	Quarter ended 31.12.2022	Nine months ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2021
Total Income from Operations	1,53,599	4,08,350	1,15,356
Net Profit for ordinary activities before tax	27,454	78,127	10,036
Net Profit for the period after tax (PAT)	20,545	58,300	7,336
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	21,476	58,046	7,588
Paid-up Equity Share Capital (Face Value per share Re. 1/-)	2,354	2,354	2,354
Earnings Per Equity Share (Face Value of Re. 1/- each)			
1. Basic	8.73	24.77	3.12
2. Diluted	8.73	24.77	3.12

KEY NUMBERS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS (₹ in Lakh)

Particulars	Quarter ended 31.12.2022	Nine months ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2021
Total income from operations	1,53,599	4,08,350	1,15,356
Profit before tax	27,436	78,114	10,040
Profit after tax	20,527	58,287	7,340

Highest ever quarterly Total Revenue of Rs.1536 cr.

For and on behalf of Board of Directors of KRBL Limited
 Sd/- Anoop Kumar Gupta
 Joint Managing Director
 DIN: 00030109

Regd. Office: 5190, Lahori Gate, Delhi-110006
 CIN: L0111DL1993PLC052845, Email: investor@krblindia.com, website: www.krblrice.com, Tel: +91-11-23968328, Fax: +91-11-23968327

Place: Noida
 Date: 03 February 2023

NOTES:
 The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's website viz. www.krblrice.com.

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
RELAXO
 Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 (India), Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No.: 91-11-46800692
 E-mail: rfi@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
 CIN: L74899DL1984PLC019097

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 (₹ in Crores)

Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
	Unaudited				Audited
1. Total Income from Operations	685.45	748.99	2032.08	1972.89	2676.99
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	40.58	93.97	124.60	226.16	310.60
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	40.58	93.97	124.60	226.16	310.60
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	30.10	70.10	91.17	169.75	232.68
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	30.18	69.67	92.94	169.47	232.99
6. Equity Share Capital	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
7. Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	1735.23
8. Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)					
Basic	1.21	2.82	3.66	6.83	9.36
Diluted	1.21	2.82	3.66	6.82	9.35

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

For and on behalf of the Board of Directors
 Sd/- Ramesh Kumar Dua
 Managing Director
 DIN: 00157872

Delhi, February 4, 2023

RELAXO FLITE **SPARX** **Bahamas**

brightcom group

Q3

	Quarterly		9 Months Ending	
	Q3 FY 2022-23	Q3 FY 2021-22	Dec 31, 2022	Dec 31, 2021
Revenue	2,865.17	2,021.33	6,028.84	3,779.16
EBIDTA	814.48	568.87	1,774.13	1,122.34
PBT	746.16	505.71	1,577.50	941.59
PAT	543.93	371.45	1,141.84	689.14

(All numbers in Rs. crores)

42% Consolidated Revenue rose
46% PAT
43% EBIDTA

60% Consolidated Revenue rose
66% PAT
58% EBIDTA

JKTYRE & INDUSTRIES LTD.

Net Profit up 24%

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022 (₹ in Crores)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended
		31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)
1	Revenue from Operations	3,612.92	3,756.52	3,076.03	11,012.47
2	Operating Profit (PBITD)	349.04	305.21	281.40	945.68
3	Net Profit before Tax and Exceptional items	126.86	96.66	81.50	315.13
4	Net Profit before Tax but after Exceptional Items	112.73	73.56	88.16	243.40
5	Net Profit after Tax and Exceptional items	66.75	49.61	53.92	151.49
6	Total Comprehensive Income [comprising Profit for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	101.97	61.13	51.59	208.42
7	Equity Share Capital	49.25	49.25	49.25	49.25
8	Other Equity excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of previous year	2,799.06			
9	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) - Basic / Diluted (₹)	2.68	2.08	2.31	6.26

Notes:
 * Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b):

PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended
	31.12.2022 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)
Turnover	2,486.28	2,418.08	2,130.38	7,245.54
Operating Profit (PBITD)	217.70	180.77	200.94	575.13
Profit before Tax	84.46	47.98	84.15	171.87
Profit after Tax	53.71	36.07	57.91	116.45

Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31.12.2022 can be viewed on websites of the Company, National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. at www.jktyre.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

* Exceptional Item primarily represents unrealised forex loss caused by recent volatility in exchange rates and consequential re-instatement of foreign currency items. It also includes ₹ 1.04 toward VRS expense.

* The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (URL: www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on website of the Company at www.jktyre.com.

JK Tyre adjudged 'Best in Class' ESG rating from CareEdge

Chennai
 3rd February, 2023

For JK Tyre & Industries Limited
 Raghupati Singhania
 Chairman & Managing Director

Admin. Office : 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002, Fax: 91-11-23322059, Phone : 91-11-66001112, 66001122
 Regd. Office : Jaykaygram, PO - Tyre Factory, Kankroll - 313 342, Rajasthan, Website : www.jktyre.com
 Corporate Identity Number : L67120RJ1951PLC045866

